

दर्शायित किया जाता है कि इस मापी पुस्तक में मशीन के द्वारा अंकित कुल 100 एक सौ पन्ने हैं यह मापी पुस्तक श्री. संभव उमर सहायक अधिकारी ग्रामीण कार्य विभाग कार्य अद्वर प्रमण्डल कुलगाही को निर्गत की जाता है।

*[Signature]*  
18/06/21

कार्यपालक अधिकारी

ग्रामीण कार्य विभाग

कार्य प्रमण्डल, मध्यप्रदेश

*[Signature]*  
18/06/21

Schedule XLV- Form No.- 134.

\_\_\_\_\_ DIVISION

\_\_\_\_\_ SUB-DIVISION

\_\_\_\_\_ MEASUREMENT BOOK

\_\_\_\_\_ No.

Name of officer \_\_\_\_\_

Date of first entry \_\_\_\_\_

Date of last entry \_\_\_\_\_

Name of the work-  
Situation of work-  
Agency by which work is executed-  
Date of measurement-  
**No. and date of agreement-**  
(These four lines should be repeated at the commencement of  
the measurements relating to each work)

01

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
<u>Record of measurement</u>					
<u>Start on A/C Bill</u>					
<u>N/W:- NH105 Ram Sankar mandir</u>					
<u>To Mughalbari tehi under ND B.</u>					
<u>MIS Yoduban Singh</u>					
<u>Assn N/A:- 33 S.B.D/ 2021 - 22.</u>					
<u>Date of start - 28.5.21.</u>					
<u>Date of completion - 27.5.22.</u>					
<u>(1) Setting out pillars - do- E/D</u>					
<u>(i) — 3 nos.</u>					
<u>(ii) — 18 "</u>					
<u>(iii) — 21 nos.</u>					
<u>(2) clearing &amp; grubbing Rd.</u>					
<u>Land - do - E/D.</u>					

	$8 \times 30.10 \times 3.50 = 84$	$0.40 m^2$
	$11 \times 30.10 \times 3.50 = 115$	$0.50 m^2$
	$9 \times 30.10 \times 3.50 = 94$	$0.40 m^2$
	$13 \times 30.10 \times 3.50 = 136$	$0.50 m^2$
	$10 \times 30.10 \times 3.50 = 105$	$0.40 m^2$
	$14 \times 30.10 \times 3.50 = 147$	$0.50 m^2$
	$12 \times 30.10 \times 3.50 = 126$	$0.40 m^2$
		$808.50 m^2$
		$\div 10,000 = 0.0814 m^2$

(3)	E.I.W. in excav. informa.-	
	-do -do -EI	
H.W. -	$3 \times 2 \times 6.45 \times 1.4 \times 1.50 = 81.97 m^3$	
Below Pipe -	$3 \times 4.85 \times 1.53 \times 0.365 = 8.124 m^3$	
		<u>83.39 m<sup>3</sup></u>

## Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
					BF 1303055 = w
Sealing Compound					
Gty side T.M.B.P 8					
24.00 M.					
Gty side T.M.B.P 14					
- 12.00 M					
TOTAL 36.00 M C					
Rs 37 = 37/ M 1345 = w					

20/5 Construction of  
embankment for  
bottom area fill  
-- Gty side T.M.N

P- 8	3234.48
M³ C.R.S 154 = 07/M	
	Rs 498336. w
808.62 M³ C.R.S	
190 = 36 / M³ R 153929. w	

<u>22</u>	TOTAL Rs 11956665. w
Add GST + L.C 13% 1554366. w	
	TOTAL Rs 13511031.00
Deduct 9.89% B.E.W/H 1336240. w	
	12174791.00

Deduct Previsions	
Payment Rate T.M.B P-9	8253714. w
Net Total Rs 3921077. w	

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
B.F	392	10	77.00		
(Rupees Thirty nine					
Loc Twenty one					
Thousands					
Seven) only.					
Area	25.52				25.52
S.G.	Maternal Sand	26.00	80		
Stone Metal	1046.803	m <sup>3</sup>			
Local Sand	37.118	m <sup>3</sup>			
	55.67				
Dust	181.862	m <sup>3</sup>			
Stone Chipp	72.671	m <sup>3</sup>			
K. Canal	40.990	m <sup>3</sup>			
Rooms	25.52				